

यदि आपने पहले Petrobras प्रतिभूतियाँ खरीदी या अन्यथा प्राप्त की हों, तो आप समझौते की वर्ग कार्रवाई से नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

निवेशकों द्वारा Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") और उसकी कुछ सहायक कंपनियों, अंडरराइटर्स, बाहरी ऑडिटर, तथा वर्तमान व पूर्व निदेशक और अधिकारियों के खिलाफ दायर प्रतिभूतियों से संबंधित वर्ग कार्रवाई के मुकदमे में दो प्रस्तावित समझौते हुए हैं। समझौतों में Petrobras द्वारा जारी कुछ प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। Petrobras, अंडरराइटर प्रतिवादी, और PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC Brazil") गलत काम के किसी भी और सभी आरोपों से इनकार करते हैं, और जिला अदालत ने तय नहीं किया है कि कौन सही है।

यदि आपने पहले प्रेषित दिनांक 9 मई, 2016 के लंबित वर्ग कार्रवाई के नोटिस के जवाब में शामिल न किए जाने का अनुरोध किया था, तो आपको इस समझौते में शामिल किया गया है, और यदि आप वर्ग समझौते में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो आपको फिर से अपवर्जन का अनुरोध करना होगा।

क्या मुझे प्रस्तावित समझौते में शामिल किया गया है? आपको वर्ग समझौते में शामिल किया गया है या नहीं, यह देखने के लिए आपको वेबसाइट www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ग समझौते में ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने:

- 22 जनवरी, 2010 और 28 जुलाई, 2015 सहित उस समयावधि के बीच की अवधि के दौरान, ("वर्ग अवधि"), PifCo और/या PGF द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों सहित Petrobras प्रतिभूतियों को, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अथवा अन्य सुरक्षित लेन-देन में खरीदा या अन्यथा प्राप्त किया है; और/या
- Petrobras, PifCo, और/या PGF द्वारा सुरक्षित लेन-देन में जारी ऋण प्रतिभूतियों को, सीधे संयुक्त राज्य में पंजीकृत 13 मई, 2013 की सार्वजनिक पेशकश और/या संयुक्त राज्य में पंजीकृत 10 मार्च, 2014 की सार्वजनिक पेशकश के अनुसरण में खरीदा या अन्यथा प्राप्त किया है, जो Petrobras द्वारा अपने प्रतिभूति धारकों को सामान्य रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली पेशकश की प्रभावी तिथि (13 मई, 2013 की सार्वजनिक पेशकश के मामले में 11 अगस्त, 2014 तथा 10 मार्च, 2014 की सार्वजनिक पेशकश के मामले में 15 मई, 2015) के बाद आरंभ होने वाली कम से कम बारह महीनों की अवधि को शामिल करने वाली आय विवरणी से पहले संपन्न हुई हो।

समझौतों के प्रयोजनों के लिए, "सुरक्षित लेन-देन" का मतलब ऐसा कोई भी लेन-देन है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:

- न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ("NYSE") पर ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध Petrobras प्रतिभूति से संबंधित कोई भी लेन-देन;
- Petrobras प्रतिभूति से संबंधित कोई भी लेन-देन जिसे डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी की खाता-बही प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से समाशोधित या निपटारा गया हो; या

(iii) Petrobras प्रतिभूति से संबंधित कोई भी लेन-देन जिस पर *मॉरिसन बनाम नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक*, 561 U.S. 247 (2010) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसरण में लागू होने वाले संयुक्त राज्य के प्रतिभूति कानून लागू होते हैं।

वर्ग समझौते की पूर्ण परिभाषा, और साथ ही मानदंड (i), (ii), तथा (iii) को पूरा करने के लिए पात्र Petrobras प्रतिभूतियों की संपूर्ण सूचियाँ यहाँ उपलब्ध हैं: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

समझौते क्या प्रदान करते हैं? Petrobras, अंडरराइटर प्रतिवादी, और PwC ब्राजील ने US\$3 बिलियन (US\$3,000,000,000.00) के संयुक्त मूल्य के साथ निपटान के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रस्तावित समझौता इस आधार पर नकद भुगतान प्रदान कर सकता है कि: आपने कौन-सी प्रतिभूतियाँ खरीदी या प्राप्त की हैं; आपके द्वारा खरीदी या प्राप्त की गई पात्र प्रतिभूतियों की संख्या; और आपने पात्र प्रतिभूतियाँ कब खरीदी या प्राप्त की थीं।

मुझे भुगतान कैसे मिल सकता है? आपको भुगतान प्राप्त करने के लिए 9 जून, 2018 तक दावा प्रमाण पोस्टमार्क या प्रस्तुत करना होगा। वेबसाइट पर जाएँ और ऑनलाइन दावा प्रमाण दायर करें, या डाउनलोड करके डाक द्वारा फाइल करें।

मेरे अन्य विकल्प क्या हैं? यदि आप समझौते द्वारा कानूनी तौर पर बँधना नहीं चाहते, तो स्वयं को बाहर करने के लिए आपको अपवर्जन फॉर्म हेतु लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जो 27 अप्रैल, 2018 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि आप खुद को बाहर नहीं करते, तो आपको Petrobras, अंडरराइटर प्रतिवादियों, और PwC ब्राजील तथा कुछ अन्य छूटने वाले पक्षों के खिलाफ अपने कोई दावे छोड़ने होंगे। आप लिखित आपत्ति सबमिट करके समझौते पर आपत्ति कर सकते हैं, जो 11 मई, 2018 तक प्राप्त हो जानी चाहिए। आप स्वयं को समझौते से अलग, तथा समझौते पर आपत्ति, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। नीचे सूचीबद्ध वेबसाइट पर उपलब्ध लंबी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आप स्वयं को किस प्रकार हटा सकते हैं या आपत्ति कर सकते हैं। अदालत द्वारा यह विचार करने के लिए 4 जून, 2018 को समझौते पर सुनवाई की जाएगी कि समझौते को अंतिम रूप से मंजूरी दी जाए या नहीं और वकील की फीस के रूप में समझौते की कुल राशि का लगभग 9.5%, जो \$285,000,000.00 है, और वर्ग प्रतिनिधियों के लिए \$400,000 तक का मुआवजा दिया जाए या नहीं। आप स्वयं या आपके द्वारा नियुक्त वकील के माध्यम से समझौता सुनवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए जरूरी नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, जिसमें राहत, पात्रता, और दावा छोड़ना शामिल है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या वेबसाइट पर जाएँ।